

August 20, 2021

BSE Limited, (Corporate Relationship Department), P J Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai- 400 001

BSE Code: 530343

National Stock Exchange of India Ltd., (Listing & Corporate Communications), Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051.

NSE Symbol: GENUSPOWER

Dear Sir,

Sub: Newspaper advertisement related to AGM, Dividend and other related matters.

Pursuant to regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith a copy of newspaper advertisement published in the newspapers with regard to the 29th Annual General Meeting, Dividend and other related matters.

You are requested to kindly take the same on record.

Thanking you,

For Genus Power Infrastructures Limited

Ankit Jhanjhari (Company Secretary)

Encl. as above

Jaishankar slams China for terror stand at UNSC

'Pak-based terror groups LeT, JeM operate with impunity, encouragement'

66 LET US ALWAYS

REMEMBER THAT

WHAT IS TRUE OF

UNTIL ALL OF US

S JAISHANKAR

ARE SAFE"

COVID IS EVEN MORE

TRUE OF TERRORISM:

NONE OF US ARE SAFE

New Delhi, 19 July

n a swipe at China, India told the UN Security Council on Thursday that countries should not place "blocks and holds" without any reason on requests to designate terrorists, warning that any double standards and distinctions between terrorists would be made only at "our own peril".

'The international community holds a collective view that terrorism in all its forms and manifestations must be condemned. There cannot be any exception or justification for any act of terrorism, regardless of motivations behind such acts," External Affairs Minister S Jaishankar told the UN Security Council.

Jaishankar, President of the UN Security Council. chaired the UNSC Briefing on Threats to International Peace and Security Caused by Terrorist Acts.

Speaking in his national

capacity, Jaishankar alluded to his remarks to the Council made in January this year when he had proposed an eight-point action plan aimed at collectively eliminating the scourge of terrorism.

"Summon the political will: don't justify terrorism, don't glorify terrorists; No double standards. Terrorists are terrorists; distinctions are made only at our own peril; Don't place blocks and holds on listing requests without any reason," he said. This was in reference to China, a permanent member of the UNSC, repeatedly placing technical holds on bids by India and other nations to designate head of Pakistan-based mili-Jaish-egroup

External Affairs Minister

Mohammed Masood Azhar. "Let us always remember that what is true of Covid is even more true of terrorism: none of us are safe until all of us are safe," Jaishankar added.

On Pakistan

Jaishankar also said terror groups like the LeT and JeM continue to operate with both

impunity and encouragement.

"In our own immediate neighbourhood, Khorasan (ISIL-K) has become more energetic and is constantly seeking to expand its footprint. Events unfolding in Afghanistan have naturally enhanced global concerns about their implications for both regional international security," he

"Whether it is in Afghanistan or against India, groups like Lashkar-e-Taiba (LeT) and Jaish-e-Mohammed (JeM) continue to operate with both impunity encouragement,' Jaishankar said.

"We, in India, have of course had more than our fair share of challenges and casualties. The 2008 Mumbai terror attack is imprinted in our memories. The Pathankot air base attack and the 2019 suicide bombing of our policemen at Pulwama are even more recent "he said

▶ FROM PAGE 1

Those supporting the Tatas argued that although the rule change seemed to be an attempt to impose curbs on ecommerce players with significant FDI, it could hurt the Indian players in the process. Large diversified Indian groups like the Tatas, Birla and Bajai, which have built a customer eco system by foraying into diverse sectors through group companies, would need to alter the model, a top executive of a domestic retail chain said.

The e-commerce draft has also put in other restrictions. For instance, it does not permit usage of the name or brand associated with that of the marketplace e-commerce entity to offer for sale of products or services on its platform.

Also, the definition of an ecommerce entity has been expanded in such a way that it will impact diversified Indian groups. Under the new draft guidelines, the definition of an e- commerce entity has been extended to include all related parties. A debate is already on in the country as to whether super apps work. Bharti Airtel is one company which has decided not to pursue super Airtel said the concept had worked only in China, where companies like Tencent have a huge subscriber base. That's also because competition from foreign companies is limited in China and customers have limited choice.

India Inc...

Metal and energy prices are off their highs while banks' earnings may come under pressure from a rise in interest rates

The combined net profit of the companies excluding banks and financials, oil and

Q1FY22 was the lowest in four quarters and up only 12.2 per cent over Q1FY20 quarter. This translated into 4 per cent compound annual growth (CAGR) in earnings in the last three years -- not very different from earnings growth in the prepandemic period.

The moderation in revenue growth has been more dramatic. The combined net sales of all listed companies in O1FY22 at ₹21.4 trillion are only 3.3 per cent higher than in the April-June FY20 quarter. In comparison, the combined net sales of all listed companies ex-BFSI, oil and metals in O1FY22 are up just 0.5 per cent over the April-June FY20 level (see the adjoining charts).

"Nearly 90 per cent of the post-pandemic surge in corporate profits in the last few quarters came from price effect rather than volume effect. This includes metals and banks which have seen the biggest jump in earnings in the last four quarters," said Dhananjay Sinha, managing director and chief strategist, JM Financial Institutional Equity

According to him, the demand recovery after the first wave of Covid-19 in India has been faltering after the pentup demand was over by the end of December last year. This, in turn, has affected revenue and earnings growth for companies in consumer demand-related sectors such as FMCG, automobiles, auto ancillaries, consumer durables and retail lenders.

This shows in the sectoral break-up of corporate profits in the first quarter. Metals and mining and banks were the two most profitable sectors in Q1FY22. The two together accounted for 38 per cent of all corporate profits in the quarter, up from 30 per cent in Q4FY21 and much higher than their five-year average contribution of 15 per cent.

Metals and mining compa-

gas, and metals and cement in nies such as Tata Steel, JSW BS SUDOKU # 3441 6 8 4 9 1 4 5 8 6 3 5 3 6 2 5

SOLUTION TO #3440

2	5	9	6	4	3	7	8	1
1	4	8	9	7	5	6	3	2
3	7	6	1	2	8	9	4	5
6	1	5	7	3	9	4	2	8
9	3	4	2	8	1	5	6	7
7	8	2	4	5	6	1	9	3
8	2	1	5	6	4	3	7	9
5	6	7	3	9	2	8	1	4
4	9	3	8	1	7	2	5	6

Hard **** Solution tomorrow

HOW TO PLAY

Fill in the grid so that every row, every column and every 3x3 box contains the digits 1 to 9

Steel, Coal India, Hindalco, Hindustan Zinc and NMDC, put together, were the singlebiggest contributor to corporate profits in the April-June FY22 quarter. With a combined net profit of ₹39,000 crore, these companies accounted for a fifth of India Inc's earnings in Q1FY22, up from 18 per cent in Q4FY20 and their five-year average

contribution of 7.3 per cent. Nearly two-thirds of the corporate profits in Q1FY22 were accounted for by companies in four sectors -- metals and mining, banks, oil and gas, and IT services. Historically. these four sectors have accounted for 55 per cent of corporate earnings.

In contrast, pure-play manufacturers in sectors such as automobiles, consumer durables, capital goods, and FMCG saw a Q-o-Q decline in operating profit margins, revenues, and profits in Q1 FY22. The combined net profit of

1,305 manufacturing and domestic-market-oriented service sector companies was down 21 per cent O-o-O to the lowest level in eight quarters with the exception of the lockdown quarters of Q4FY20 and Q1FY21. In comparison, their net sales were down 15.6 per cent Q-o-Q. These companies reported combined net profits of ₹45,640 crore in O1FY22 down from ₹57,654 crore in Q4FY21. Net sales in the period declined from ₹8.35 trillion to ₹7.05 trillion. The analysis excludes banks, insurance, NBFCs, IT companies, oil and gas, and commodity producers such as metals, mining, cement, sugar, and paper.

Given this, many analysts see a further downgrade in corporate earnings in the second half of FY22.

India-US trade deal...

Finalising a trade deal between India and the EU may not be a smooth ride, considering there are 27 nations in the trade bloc and talks have restarted after a gap of eight years. "We will work very hard to speed it up," Goyal said.

Considering the past experiences, India has revamped its strategy towards inking trade deals and will not allow the

"same mistakes" of the past. "We are engaging with industry to ensure that FTAs are fairly and equitably crafted. At the same time, FTAs cannot be one-way traffic. We also need to open our markets if we want a larger share in foreign markets. So, we need to identify areas where we can withstand competition. We can sort out FTAs fairly quickly if areas where we have the ability to compete internationally can be identified as part of a collective effort," Goyal said.

"Our effort is to ensure focus on countries where we have significant potential, where we can compete better, and where market size is significant." Goval said.

Had it not been for the outbreak of the pandemic and elections in Canada, a trade agreement with the country would have been at a more advanced stage, the minister said.

His remarks assume significance, with India walking away from the China-backed Asian trade bloc Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), which signed an agreement last year to create the world's biggest free trade bloc.

Last week, the commerce secretary had said that signing FTAs was crucial as India was not part of any local or regional arrangement.

"If an FTA with the UAE happens, FTAs with (other) GCC countries too will get expedited," the minister said, urging export promotion councils to study FTAs and see if there were hidden opportunities in them.

On the new export boosting scheme - Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) - Goyal said sectors such as steel, pharma, and chemicals were not brought under its ambit due to lack of adequate budget. "But we have an open mind to consider concerns and rectify mistakes that might have crept in, if anyone feels it is detrimental to their industry," he said. He also informed exporters that the ministry was setting up two separate divisions that would focus entirely on the services sector.

EEPC India Chairman Mahesh Desai said that the government should relook refund rates under RoDTEP and ensure full rebate on the taxes in the export production chain, failing which Indian engineering goods exporters could lose some of the markets. "In addition to this, dues on account of the MEIS scheme should be cleared. The working capital limits should be increased by banks as steel prices have increased by double and freight rates by 3 to 4 times. These supports are needed to meet the \$107 billion exports target for the sector in FY22," he said.

Govt to back setting up chip industry

Commerce and Industry Minister Piyush Goyal on Thursday said the government will support the setting up of the semiconductor industry in India, which will also help reduce foreign exchange outflows. "There are two sectors that we as a nation need to focus on. One is how can we make Indian shipping expand its scope and the business potential of Indian ships, vessels and increase engagement with the shipping industry. Second is the semiconductor industry, as there is a worldwide shortage. The government is committed to supporting both these sectors," Goyal said. The statement comes days after Tata Group announced its intention to enter the semiconductor business, at a time when there is a significant global shortage of the product. The minister also hoped that large companies will take interest in the shipping industry, which will give the right impetus to the

Shreya nandi

crucial sector for the country's

foreign trade.

Place: Mumbai

ASSAM POWER GENERATION CORPORATION LIMITED

The Chief General Manager APGCL Bijulee Bhawan 3rd Floo

Dated: 19.08.2021 Consultancy Services for preparation of Detailed Project Repo

(DPR) for 100 MW Namrup Gas Engine Project Supply of fresh finished product of CS category of Hyb. Maize ast date of Tender Submission through online mode: 09.09.2021 up to 13:00 hrs

ast day of Tender hardcopy submission: 09.09.2021 up to 13:00 hrs.

Tender opening: 09.09.2021 at 15:30 hrs or details please visit e-procurement portal https://assamtenders.gov.in and www.apgcl.org. Any addendum/corrigendum will be made available in https:

Sd/- Chief General Manager (Gen), APGCI

TELANGANA STATE POWER GENERATION CORPORATION LIMITED VIDYUT SOUDHA:: HYDERABAD – 500 082. **ELECTRONICS LIMITED**

Regional Manager NSC, Kolkata

T.No.e-100/CE/O&M/KTPS-VII/P12/IT/TSGENCO/2021-22 KTPS-VII - Supply of material for establishment of Surveillance System in essential locations/Areas of KTPS-VII Stage premises, Paloncha, Bhadradri Kothagudem Dist. Value of the works: ₹.26.54,700/-. Scheduled Open & Closing Date: 06.08.2021 at 17:30 Hrs & 27.08.2021 at 15:30 Hrs.

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD. (A Govt. of India Undertaking- Mini Ratna Company) CIN No.- U74899DL1963G01003913

RO:Block-AQ, Sector-V, Plot No.-12, Salt Lake City, Kolkata-700 091 (West Bengal) Ph:033-2367-1077 • Fax:033-2367-1076 • Website: www.indiase

E-TENDER NOTICE

DMRH-1301 (1500 Qtls.) and Hyb. Maize DMRH-1308 (1500 Qtls).

For details, visit NSC's website www.indiaseeds.com under Public Notice

(Tender/Quotations), Online Bids for above both tenders must be submitted

separately at NSC e-Portal: https://indiaseeds.eproc.in latest by 14:30

Hrs. of 02.09.2021. Corrigendum/addendum, if any, shall only be published

No:-Prodn.-03/NSC:KOL/2021-22

in NSC's website

T.No.e-01/CE/Civil/Hydel/TSGENCO/2021-22 SLBHES - Fabrication of new trash rack elements, underwater rectification of trash rack grooves, removing and lowering of trash rack elements in grooves of Vent Nos. 5.6.7 & 8 of trash rack structure of downstream intake structure of SLBHES, Eagalapenta, Nagarkurnool Dist. Value of the works: ₹.1.26.39.000/-

T.No.e-04/CE/Civil/Thermal/RTS/TSGENCO/2021-22

Scheduled Extended: 06.09.2021 at 16:00 Hrs.

RTS-B - Sale of Scrap Materials available at RTS-B Station, Ramagundam, Peddapally District on as is where is basis. Value of the works: ₹.28,30,000/through e-auction-Inspection start date: 04.09.2021 & E-Auction date: 08.09.2021

For further Details: www.tsgenco.co.in, https://tender.telangana.gov.in & https://auction.telangana.gov.in

Genus Power Infrastructures Limited Registered Office: G-123, Sector-63, Noida-201307, Uttar Pradesh

(Tel.: +91-120-2581999; E-mail: cs@genus.in; Web: www.genuspower.com; CIN: L51909UP1992PLC051997)

lotice of the 29th Annual General Meeting, Book Closure and E-Voting Information Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Genus

Power Infrastructures Limited ("Company") will be held on Thursday, September 16, 2021 at 3:30 p.m. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, read with the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the SEBI, in this regard (Collectively referred to as "applicable circulars") to transact the business as set forth in the Notice of AGM. In accordance with the applicable circulars, the Notice of AGM and Annual Report for the financial

year 2020-21 will be sent to all those members of the Company, whose email addresses are registered with the Company/RTA/Depository Participant(s). The aforesaid documents shall also be available on website of the Company at www.genuspower.com, website of the Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com and website of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Members are requested to contact the Depository Participants in case of shares held in electronic

form or the Company's Registrar and Transfer Agent ("RTA"), Niche Technologies Private Limited, in case the shares are held in physical form for registering/validating/updating their email address and mobile nos. In case of any queries, Members may write to "nichetechpl@nichetechpl.com". Members who have not registered their e-mail address may temporarily get their email address and mobile number registered with the Company, by sending an e-mail request to the email id "cs@genus.in" along with scanned copy of the signed request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio.

Members holding shares as on the cut-off date i.e. September 09, 2021 may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of AGM through remote e-voting or e-voting during the AGM. The detailed procedure or instructions for e-voting and joining the AGM are provided in the notice of AGM. Please read the instructions mentioned in the notice of the AGM before exercising your vote. The Board of Directors has recommended a dividend of Re.0.50 (Fifty paisa) per equity share on

equity shares of the face value of Re.1 each (i.e. 50% of the face value) for the FY 2020-21 to the Shareholders for their approval. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 10, 2021 to Thursday, September 6, 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM and for determining the entitlement of Members to the dividend. The dividend, once approved by the Members in the ensuing AGM, will be paid on or before October 15, 2021 to those Members whose name appears in the Register of Members as of the close of business hours on Thursday, September 09, 2021 subject to deduction of tax at source, where applicable. The dividend will be paid through various online transfer modes to the Members who have updated their bank account details. For Members who have not up dated their bank account details, dividend warrant/cheque will be sent to their registered address, subject to availability of postal services. To avoid delay in receiving dividend, members are requested to update their bank details with their Depository Participants, where shares are held in dematerialised mode, and with the RTA/Company, where the shares are held in physical mode.

Ankit Jhanjhar

RISHI LASER LIMITED CIN - 1 99999MH1992PI C066412

Regd. Office : 612, Veena Killedar Indl. Estate, 10/14, Pais Street, Byculla (W), Mumbai-400 011 Tel. No. (022) 23074585, 23084886 Fax No. (022) 23080022 Website: www.rishilaser.com E-mail:rlcl.mumbai@rishilaser.com

NOTICE OF 29[™] ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD IROUGH VIDEO CONFERENCE / OTHER AUDIO VISUAL MEAI

NOTICE is hereby given that the 29th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Rishi Laser Limited will be held on Friday, 17th September, 2021 at 11.00 a.m. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") ("AGM" / "the Meeting") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules fram thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020 and 13th January, 2021 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMDI/CIR/P/2020/ dated 12th May, 2020 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/2021/11 dated 15th January, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circular'), without the physical presence of the Members at a common venue, to transact business mentioned in the notice of the meeting to be sent electronically to the members of the Company within due course of time

However, in accordance with the provisions of the "Secretarial Standards on General Meetings" (SS-2), the Company is required to keep a place as the deemed venue for the 29th Annual General Meeting. The Company's Registered Office at 612, Veena Killedar Industrial Estate 10-14 Pais Street, Byculla (West) Mumbai MH 400011 IN will be deemed to be the venue of the Annual general Meeting.

Shareholders whose email ids are registered with the Company will receive a copy of Annua Report and Notice via email: The requirements of sending physical copy of the Notice of the 29th AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circular/s and SEBI Circular for the forthcoming Annual General Meeting.

In case of Member(s) who have not registered their e-mail addresses may register the same be sending an E-mail to Company's email id: rlcl.mumbai@rishilaser.com or to the Company's Registrar & Transfer Agent, M/s. Adroit Corporate Services Private Limited, E-mail id info@adroitcorporate.com mentioning their folio number. Members are requested to keep their E-mail Id's updated in the Demat account or with the Company as the case may be.

Members can join and participate in the 29th AGM through VC / OAVM facility only. The detailed instructions for joining the 29th AGM and the manner of participation in the rem electronic voting or casting vote through the e-voting system during the 29th AGM shall be provided in the Notice of the AGM. Members participating through the VC / OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the 29th AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Company at www.rishilaser.com website of the Stock Exchange i. e. BSE Limited at www.bseindia.com and the AGM Notice is also available on the website of National

Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evotingindia.com.

Your Company is pleased to provide e-voting facility to the members holding shares either in physical form or dematerialized form as on the cut-off date of 10th September, 2021 on the ordinary and special business, as set out in the Notice of the 29th AGM through electronic voting system ("remote e-voting") of National Securities Depository Limited ('NSDL'). The voting rights shall be as per the number of equity shares held by the members as or 10th September, 2021 (cut-off date), E-voting will commence on 13th September, 2021 at 9.00 a. m. (IST) and will end on 16th September, 2021 at 5.00 p. m. (IST). The Company has appointed M/s. Sudhanwa S. Kalamkar & Associates, Practicing Company Secretaries to act as a Scrutinizer, to scrutinize the remote e-voting process and electronic voting during

Members / Shareholders who all have not casted their votes during the e-voting period, can also cast their votes electronically during the meeting. The e-voting module shall be disabled by NDSL for voting thereafter. It may please be noted that the votes given by any member nrough e-voting facility shall be treated as final and binding and the shareholder will not be allowed to change it subsequently.

For detailed instructions pertaining to E-Voting, members may please refer Notes to the Notice of 29th AGM. Members facing any technical issue in login before / during the AGM can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free No. 1800 1020 990 and 1800 22 44 30.

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of The Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members, Share Transfer Books and Register of Beneficial Owners of the Company will remain closed from Saturday, 11th September, 2021 to Friday, 17th September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

By Order of the Board

Place: Gurugram

Harshad Patel Managing Director DIN: 00164228

CIN: L03210TZ1985PLC001535- Registered Office: Samichettipalayam, Coimbatore 641047, Ph: 0422-4233600/4233614, Fax 0422-2692170,

NOTICE TO MEMBERS

Notice of the 36th Annual General Meeting and E-Voting Information

NOTICE is hereby given that 36th Annual General Meeting ("AGM") of Salze Electronics Limited (the Company) will be held at 11:30 am on Monday, September 13, 2021 through Video Conferencing (VC) /Other Audio Visua Means (OAVM) to transact the businesses contained in the notice dated June 15, 2021.

The Company has sent the notice of 36th AGM and Annual Report for the financial year 2020-21 ("FY21") on Thursday, August 19,2021 through electronic mode to members whose email addresses are registered with Depository Participant (DPs)/ Registrar and Share Transfer Agent (RTA), in accordance with the General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs followed by Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May. 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

The Annual Report for FY 21 and AGM notice can also be downloaded from the following websites:Company: www.salzergroup.net, Exchanges: www.bseindia com&www.nseindia.com and www.nsdl.com.

Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of 36th AGM. Members attending the Meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act The Company is providing remote e-voting facility to all its members to cast

their vote on all businesses contained in the notice through the e-voting platform of www.evoting.nsdl.com besides providing a facility for voting by electronic means in the AGM. The remote e-voting shall begin on September 08, 2021, Wednesday at 9:00 A.M. (IST) and end on September 12, 2021, Sunday at 5:00 P.M. (IST). The remote e-voting shall be disabled by NSDL thereafter. The Board of Directors has appointed Mr. G Vasudevan, Practicing Company Secretary as Scrutinizer to scrutinize the voting process in a fair and transpared

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on September 06, 2021 being the cut-off date, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting electronic voting in the AGM. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of

the Company after the Notice has been sent electronically by the Company, and holds shares as of the cutoff date, may obtain the login id and password by sending a request to evoting@nsdl.co.in

However if such a person is already registered with NSDL for e-voting then he she can use the existing user ID and password for casting the vote Those members who will be present in the AGM through VC facility and had not

cast their votes through remote e-voting will be provided e-voting facility in the AGM. Those members who had exercised their vote through remote e-voting may participate at the AGM but shall not be entitled to vote again

For details relating to remote E-voting and joining AGM through VC/OAVM, please refer to our Notice of 36th AGM. Any Members who require assistance pefore or during the AGM can reach out NSDL on evoting@nsdl.co.in, or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request addressed to Mr. Anubhay Saxena, Assistant Manager /Ms. Pallayi Mhatre, Manager or evoting@nsdl.co.in or for escalation to Mr. Amit Vishal, Assistant Vice President on amity@nsdl.co.in or call on (022) 2499 4360.

The Result of the Voting will be announced by the Company in its website www salzergroup, net and on the web site of NSDL and also will be intimated to the Exchanges in which the Company's equity shares are listed.

The Record date for the purpose of determining the eligible shareholders for the Dividend for the Financial Year 2020-21 is August 27, 2021, Friday,

For Salzer Electronics Ltd

DIN: 00003152 & FCS No. 4605

Date: August 20, 2021 Director (Corporate Affairs)& Company Secretary

ZUARI GLOBAL LIMITED CIN: L65921GA1967PLC000157 Registered Office: Jai Kisaan Bhawan, Zuarinagar, Goa 403 726.

Tel: (0832) 2592180, 2592181 E-mail: ig.zgl@adventz.com, Website: www.adventz.com INFORMATION REGARDING 53RD ANNUAL GENERAL MEETING

TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ('VC') / OTHER AUDIO VISUAL MEANS ('OAVM') Members may please note that the Fifty Third (53rd) Annual General Meeting (AGM)

of the shareholders of Zuari Global Limited will be held on Friday, the 17th September, 2021 at 11.00 A.M.(IST) through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') (herein after referred to as "electronic mode"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act'') read with the applicable rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 , Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and clarification Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) Government of India (collectively referred to as "MCA Circulars"), and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/ 2020/79 dated May 12, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 January 15, 2021 and such other applicable circulars issued by the Government and SEBI to transact the busin that will be set forth in the Notice of the 53rd AGM.

In compliance with the aforementioned MCA and SEBI Circulars, electronic copies of the Notice convening the 53rd AGM along with the Annual Report for the financial year 2020-21 will be sent within the prescribed timelines by email to all the Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depository participants/RTA. The said Notice of the 53rd Annual General Meeting along with the Annual Report for the financial year 2020-21 will also be available on the Company's website at www.adventz.com and on the websites of the Stock Exchanges a www.bseindia.com and www.nseindia.com.

The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM and Annual Report has been dispensed with vide MCA Circulars and the SEBI Circular. The members of the Company, who have not yet registered or updated their correct email address, are requested to register/ update the email address immediately for receiving electronic copies of the Notice convening the 53rd AGM along with the Annual Report for the financial year 2020-21, in the following manner:

Members with Physical Holding: A signed scanned copy of request letter mentioning the folio no, email id, Mobile No., PAN (self attested copy) that is to be registered may be sent to the Company's RTA, Link Intime India Private Limited at rnt.helpdesk@linkintime.co.in or send these documents to the Share Transfer Agent of the Company i.e. Link Intime India Private Limited, C-101, 247 Park, B.S. Marg, Vikhroli (W), Mumbai – 400 083; and

Members with Demat Holding: Register email address in the demat account maintained with the depository participant. Further, such member can temporarily get the email address registered with the Company for obtaining notice of $53^{\rm rd}\,AGM$ of the Company and the Annual Report for the Financial Year 2020-21 by submitting DP ID and Client ID (16 digit DP ID+ Client ID or 16 digit Beneficiary ID), Name, Copy of Client Mater or Consolidated Account Statement and self-attested copies of PAN Card and any document for proof of address (such as Driving License, Bank Statement Election Card, Passport, Aadhaar Card, etc.) through email to the Company's RTA $Link In time \ In dia \ Private \ Limited \ at \ \underline{rnt.helpdesk@linkintime.co.in.}$

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to its Shareholders to cast their votes on resolutions that will be set forth in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). The manner of remote e-voting / e-voting for Shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Shareholders who have not registered their e-mail addresses will be provided n detail in the Notice of the AGM

For ZUARI GLOBAL LIMITED

Sd/-Laxman Aggarwal **Company Secretary**

Date: August 19, 2021

उ.प्र. राज्य चीनी एवं गृन्ना विकास निगम लि. इकाईः पिपराईच (गोरखपुर) २७३१५२

र्इ-निविदा सूचना इस मिल के सत्र 2021-22 हेत निम्न के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

नेविदा अपलोड करने निविदा खोलने की अन्तिम तिथि की तिथि 07.09.2021 प्रोसेस केमिकल की आपूर्ति 08.09.2021 75,000.00

टेण्डर फार्म फीस रु. 590/- (GST सहित) तथा धरोहर धनराशि, मिल के इंडियन बैंक शाखा - पिपराईच के खाता संख्या 50537210018IFSC CODEIDIB000C503 में जमा करके टेण्डर फार्म अपलोड किया जा सकता है। किसी भी एक ई-निविदा अथवा समस्त ई-निविदा निरस्त करने का अधिकार प्रधान प्रबन्धक के पास सुरक्षित रहेगा। पूर्ण विवरण वेबसाइट etender.up.nic.in पर उपलब्ध है। **संपर्क अधिकारी** मुख्य रसायनज्ञ मो. 6389025600 क्रय प्रभारी मो. 9453224518

Mail: upsscdclpipraich2018@gamil.com प्रधान प्रबन्धक

U.P. CO-OPERATIVE SUGAR FACTORIES FEDERATION LTD.

P.NO:P-95/UPF/S.S.Export/2020-21 TENDER NOTICE Directorate of Sugar Dept of Food and public Distribution Govt. of India has vide it circular F.No 1(6)/2020-SP-I dated 29/12/2020 & 31/12/2020 & notification dated 19-01 2020 has decided to allow export of all grades of sugar namely raw. plantation white as we

circular F.No. 1(6)/2020-SP-I dated 29/12/2020 & 31/12/2020 & notification dated 19-01-2020 has decided to allow export of all grades of sugar namely raw, plantation white as well as refined under MAEQ (Maximum Admissible Export Quota).

E-tenders for quantity 19591 MT are invited from experienced Export House/Merchandise, Govt./Cooperative Institutions (In which Sate Govt./Central Govt. has/have invested share capital and such institutions having valid Importer/Exporter code and experience of sugar export) from 18/08/2021 06:55 PM onwards to purchase the quantity of Sugar from Cooperative sugar mills of Uttar Pradesh and arrange its export as per above mentioned notification under MAEQ and stipulated norms on the basis of as its where it is. Last date of submission of online tender is 25/08/2021 till 06:55 PM and tender opening date is 26/08/2021 at 11:15 AM.

Tender documents can be downloaded from e-tender portal https://letnder.up.nic.in or Federation's website www.upsugarde.org. The bidders will have to deposit tender fees (Non Refundable) of Rs. 1000/+ 18% GST = Rs 1180/-& earnest money through RTGS/NEET/NET BANKING @ 2% of Total Value of Bid Quantity Multiplied by Price Quoted & Rs 1 crore in case of MAEQ QUOTA EXCHANGE in account of U.P. Cooperative Sugar Factories Federation Ltd, Lucknow. Tenders without earnest money will not be accepted. The bank details are available on the uploaded tender

document on page 01. The bank details are available on the typoded tended cument on page 01. The undersigned reserves the right to cancel one or all the tenders without assigning any reason.

अनुसूची के नियम 38, 52(2) के तहत विक्रय की उद्घोषणा

दि नैनीताल बैंक लिमिटेड

4, राधेश्याम पार्क, नई दिल्ली-110 051

देय लागतों का भुगतान करने में असफल रहे।

नई दिल्ली-110 051

बिक्री रोक दी जायेगी।

Genus जीनस पावर इन्फ्रास्टक्चर्स लिमिटेड

(पंजीकृत कार्यालयः जी-123, सेक्टर-63, नोएडा-201307 (उत्तर प्रदेश) -91-0120-2581999, ईमेलः cs@genus.in, नेबसाइटः www.genuspower.com, CIN: L51909UP1992PLC051997

29वीं वार्षिक साधारण सभा, बहीबंदी तथा रिमोट ई-वोटिंग की सूचना तद्द्वारा सूचित किया जाता है कि जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड की 29वीं वार्षिक साधारण सभा

'एजीएम'') गरूवार. 16 सितम्बर 2021 को सायं 3:30 बजे (भारतीय समयानसार) वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग 'वीसी'') अथवा अन्य ऑडियों विजुअल माध्यामों (''ओएवीएम'') की सुविधा के माध्यम से, कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके निर्मित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के साथ कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय एवं सेबी द्वारा जारी उपयुक्त सर्क्युलरों के अनुसार लागू होने वाले प्रावधान के अनुपालन में, एजीएम के नोटिस में दी गई कार्यवाही को पूरा करने हेतु निर्धारित की गई है। उपयक्त सर्क्यलरों के अनसार, एजीएम का नोटिस एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिकी रिपोर्ट, ईमेल द्वारा उन सदस्यों को भेजी जायेगी, जिनके ईमेल पते कम्पनी ⁄रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (''आरटीए'') ⁄ डिपॉंजिटरी पार्टिसिपेंटस के पास पंजीकृत है। उपरोक्त दस्तावेज, कंपनी की वेबसाइट 'www.genuspower.com' सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (''सीडीएसल''/CDSL) की वेबसाइट www.evotingindia.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.nseindia.com और www.bseindia.com पर भी उपलब्ध रहेगें। सदस्यों से अनरोध है कि वह अपने ईमेल पते और मोबाइल नं. को पंजीकरण/सत्यापन/ अपडेट करने के लिए डिपॉजिटरी प्रतिभागी, (यदि शेयर डीमैट में है) एवं कंपनी के आरटीए, निश टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (यदि शोयर भौतिक रूप में है), से संपर्क करें। किसी प्रश्न के मामले में, सदस्य nichetechpl@nichtechpl.com" पर लिख सकते हैं । जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे हस्ताक्षरित अनुरोध की स्कैन की गई प्रति के साथ ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्व-सत्यापित पैन कॉपी और क्लाइंट मास्टर कॉपी (यदि शेयर डीमैंट में है) एवं शेयर प्रमाण पत्र की पति (यदि शेयर भौतिक रूप में है) cs@genus.in पर एक ईमेल अनुरोध भेजकर अस्थायी रूप से अपना ईमेल पता और मोबाइल नंबर कंपनी के

कट ऑफ र्तिथि 09 सितम्बर, 2021 को शेयर धारित करने वाले सदस्य, 29वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट कार्यवाही पर एजीएम के दौरान ई-वोटिंग अथवा दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा से इलैक्ट्रोनिक मतदान कर सकते हैं।ई-वोटिंग और एजीएम में शामिल होने की विस्तृत प्रकिया एवं निर्देश एजीएम के नोटिस मे

निहित है। कपया अपना वोट देने से पहले एजीएम की सूचना में उल्लिखत निर्देशों को पढ़े। निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए रू.0.50 (50 पैसे) प्रति ईक्विटी शेयर (1 रू. अंकित मुल्य पर)(अंकित मुल्य का 50 प्रतिशत) लाभांश शेयरधारको की अनुमति के लिए प्रस्तावित किया है। शेयरधारको का रजिस्टर तथा शोयर हस्तांतरण रजिस्टर शुक्रवार, 10 सितम्बर, 2021 से गुरूवार 16 सितम्बर, 2021 (दोनों दिन महित), वार्षिक मामान्य बैठक के लिए एवं लाभांश के लिए मदस्यों के आधिकारों का निर्धारण करने के हेतु बंद रहेंगे। यदि शेयरधारक एजीएम में अनुमति दे देते है तो लाभांश का भुगतान (स्त्रोत पर कर कटौती के अधीन यदि लागू है) 15 अक्टुबर 2021 या उससे पहले, उन शेयरधारको कर दिया जाएगा जिनका नाम सदस्यो के रजिस्टर में 09 सितम्बर 2021 को व्यावसायिक घंटों के बंद होने के समय उपस्थित रहता है। लाभांश का भुगतान विभिन्न ऑनलाइन हस्तांरण माध्यम से उन सदस्यों को किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट किया है। जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट नहीं किया है, उनके लिए लाभांश वारंट ⁄ चेक उपने पंजीकत पते पर डाक सेवाओं की उपलब्धता होने पर भेजा जाएगा। लाभांश प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, (यदि शेयर डीमैट मे है), और आरटीए⁄ कंपनी, (यदि शेयर भौतिक रूप में है), के साथ अपने बैंक विवरण को अपडेट करें ।

कृते जीनस पावर इन्फ्रास्टक्चर्स लिमिटेड स्थानः जयपुर दिनांक: 17 अगस्त, 2021

अम्बा प्रिंटर्स एण्ड एडवर्टाइजर्स

कार्यालय वसूली अधिकारी-।,

ऋण वसूली अधिकरण-॥।, दिल्ली

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली

बैंक एवं वित्तीय संस्थान बकाया वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय

<u>सीडी सं. 1</u> : अम्बा प्रिंटर्स एण्ड एडवर्टाजाइजर्स, प्रोपराइटर सुनीता कपूर पत्नी एल. बलदेव राज कपूर के माध्यम से, 102, गली नं.

सीडी सं. 2 : सुनीता कपूर पत्नी एल. बलदेव राज कपूर, प्रोपराइटर : अम्बा प्रिंटर्स एण्ड एडवर्टाइजर्स, 102, गली नं. 4, राधेश्याम

सीडी सं. 3 : भारत कपूर पुत्र एल. बलदेव राज कपूर, प्रोपराइटर अम्बा प्रिंटर्स एण्ड एडवर्टाइजर्स, 102, गली नं. 4, राधेश्याम पार्क,

<u>सीडी सं. 4</u> : आकाश कपूर पुत्र एल. बलदेव राज कपूर, प्रोपराइटर अम्बा प्रिंटर्स एण्ड एडवर्टाइजर्स, 102, गली नं. 4, राधेश्याम

जबिक आप पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली द्वारा पारित **ओ.ए. सं. 492/2018/डीआरटी-।।। दिनांक 10**.

09.2018 में ऋण वसूली प्रमाण-पत्र के अनुसार आप / उनके द्वारा देय रु. 35,73,142 / - (रुपए पैंतीस लाख तिहत्तर हजार एक

सौ बयालीस मात्र) (घटाये राशि जो कि ओ.ए. के लिम्बत रहने के दौरान प्राप्त हुई) तथा वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार ब्याज एवं

और जबिक अधोहस्ताक्षरी ने कथित प्रमाणपत्र की सन्तुष्टि में निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित सम्पत्ति के विक्रय का आदेश दिया है।

और जैसा कि आप/सीडी के विरुद्ध संयुक्त या अलग-अलग ओए दाखिल करने की तिथि अर्थात 10.09.2018 से पूर्ण वसूली तक

आकस्मिक व्ययों तथा 15.25% वार्षिक ब्याज सहित राशि रु. 35,73,142/ – (रुपए पैंतीस लाख तिहत्तर हजार एक सौ बयालीस

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि किसी स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में कथित **सम्पत्ति का विक्रय ई—नीलामी द्वारा 28.09.2021 को**

3.00 बजे अपराह्न से 4.00 बजे अपराह्न के बीच (आवश्यकतानुसार, बन्द होने से पूर्व संविदा के मामले में अन्तिम 5 मिनटों के

स्वतः समय-सीमा विस्तार सहित) उक्त संपत्ति की बिक्री मैं. मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उद्योग विहार, फेज 2, बिल्डिंग सं

301, गुरुग्राम, हरियाणा (भारत), दूरभाष नं. : +91-7291981124 / 25 / 26 सम्पर्क व्यक्ति : श्री विनोद चौहान, मोबाइल नं. 9813887931

अधिक विवरण तथा सम्पत्ति के निरीक्षण के लिए संविदाकार सम्पर्क करें : श्री सतीभा कुमार छाबड़ा, मुख्य प्रबंधक, उप

क्षेत्रीय प्रबंधक मोबाइल नं. 9870398867 अथवा डीआरटी-।।। दिल्ली के वसूली प्रकोष्ठ से। सम्भावित संविदाकारों द्वारा

विक्रय नीचे अनुसूची में उल्लिखित के अनुसार उपर्युक्त नाम के प्रतिवादी की सम्पत्ति का किया जायेगा और कथित सम्पत्ति से सम्बद्ध

विक्रय हेत सम्पत्ति अनुसूची में निर्दिष्ट लाटों में बिक्री हेत रखी जायेगी। यदि वसली की जाने वाली सम्पत्ति के किसी भाग द्वारा पूरी हो

जाती है तो शेष भाग की बिक्री तुरन्त रोक दी जायेगी। यदि किसी लॉट के नॉक डाउन से पूर्व कथित प्रमाण-पत्र में उल्लिखित एरियर,

याज लागतों (बिक्री की लागत सहित) को बिक्री संचालित करने वाले अधिकारी को अदा कर दिया जाता है अथवा उसकी सन्तुष्टि क ऐसा प्रमाण प्रस्तुत कर दिया जाता है कि ऐसे प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागतों का भुगतान अधोहस्ताक्षरी को कर दिया गया है तो भी

विक्रय से सम्बन्धित कर्तव्य का पालन करने वाला कोई कार्यालय या कोई अन्य व्यक्ति विक्रीत सम्पत्ति के अर्जन या अर्जन के प्रयास में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संविदा में भाग नहीं लेगा। विक्रय आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची तथा इसके तहत निर्मित

अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम सूचना के आधार पर दिया गया है किन्तु अधोहस्ताक्षरी इस घोषणा में किसी त्रुटि,

ई-मेल : <u>support@bankeauctions.com</u> वेबसाइट : <u>https://www.bankeauctions.com</u> द्वारा सम्पन्न की जायेगी।

पार्क, नई दिल्ली–110051 साथ ही : फ्लैट नं. एस–1/90, दूसरी मंजिल, न्यू रजनी एन्कलेव, दिल्ली–110092

पार्क, नई दिल्ली–110 051, साथ ही : फ्लैट नं. एस–1/90, दूसरी मंजिल, न्यू रजनी एन्कलेव, दिल्ली–110 092

मात्र) (घटाये राशि जो कि ओ.ए. के लिम्बत रहने के दौरान प्राप्त हुई) बकाया है।

निरीक्षण हेतु सम्पत्ति 23.09.2021 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. तक खुली रहेगी।

नियमों में निर्धारित शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के आधार पर किया जायेगा।

गलतबयानी या विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

दायित्व तथा दावे, जिनका अब तक निर्धारण किया गया है, वे प्रत्येक लॉट के सम्मुख अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

SOUTH INDIAN

बाग के पास मेट्रो स्टेशन, मेट्रो पिल्लर संख्या—98 के सामने, पूसा रोड़, करोल बाग, नई दिल्ली—110 055 फोन नं. 011—23610400

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद प्रतिभूति हित (प्रवर्तेन) नयमों, 2002 के अधिनियम के साथ पठित नियम 3(1) के रूप में संदर्भित) की धारा 13(2) के तहत सचना

1. श्री राजीव यमदुगनी निवासी म. सं-83, बौंझा-1, शिब्बनपुरा, पीएम सिहानी गेट

श्रीमती सुशीला शर्मा निवासी म.सं.-83, बौंझा-1, शिब्बनपुरा, पीएस सिहानी गेट याबाद. उत्तरप्रदेश–201001

उधारकर्ता / ओं के रूप में आप में से 1 और 2 ने, आवश्यक निष्पादित करके इसके तहत दिए ग दस्तावेजों से **द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड** से निम्नलिखित सीमाओं का लाभ उठाया, जिसका पंजीकृत कार्यालय एसआईबी हाउस'', टी.बी रोड, त्रिशर-1, केरल और इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली में 3 मंजिल, प्लॉट सं. 21 और 21/1, करोलबाग मेदो स्टेशन के पास, पसा रोड पर, करोलबाग, नई दिल्ली–110 005 और इसकी एक शाखा 79, कालकागढ़ी चौक, अमडकर रोड़, गाजियाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201001 और नीचे निर्धारित संपत्ति द्वारा प्रत्याभृत है— (इसके बाद प्रत्याभूत संपत्ति के रूप में संदर्भित)।

सुविधा का प्रवृत्ति	सीमा	और एओडी की दिनांक दस्तावेज की दिनांक	दिनांक 19.06.2021 तक बकाया देय राशि
संपत्ति के विरुद्ध अतिआहरण— द्राप लाईन सीमा (0355081000000414)	रुपये 10,00,000.00	18-04-2019	रुपये 9,25,939.74
वेत्त पोषित ब्याज सावधि ऋण (कोविड ऋण स्थगन)	रुपये 55,000.00	14-09-2020	रुपये 23,676.49

अक्त खाते/तों को दिनांक 01/05/2021 पर हमारे खातों में गैर निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और हमने दिनांक 20/06/2021 को अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सूचना जारी कर रुपये 9,49,616.23 (नौ लाख रुपये उनतालीस हजार छह सौ सोलह और पैसे तेईस मात्र) दिनांक 19/06/2021 तक भविष्य के ब्याज और लागत के साथ सूचना प्राप्त होने की दिनांक से 60 दिनों के भीतर के भुगतान की मांग की थी। हालांकि , आपने उक्त सूचना की सेवा के रूप में सभी अस्वीकार किया है, यह सार्वजनिक सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के 3 (1) के अनुसार जारी किया गया है।

इसलिए, आपको इस सूचना द्वारा इस सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर पूर्ण रूप में अपनी देनदारियों का निर्वहन करने के लिए बुलाया जाता है, ऐसा न होने पर, हम बिना किसी और दिए गए सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करके नीचे निर्धारित प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को उत्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रवर्तीत करने के लिए विवश होंगे।

आप आगे ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप हमारी पूर्व लिखित सहमति के बिना उपरोक्त प्रत्याभूत संपत्ति में से कोई भी उपरोक्त प्रतिभूतियों के व्यवहार या उससे निपटने या बिक्री, पट्टे के माध्यम से स्थानांतरित करने से या अन्यथा (व्यवसाय के साधारण प्रकार के अलावा से संयमित / निषिद्ध हैं । कृपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन ऐसे अधिकारों और उपचारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना किया जाता है जैसा कि कानून के अनुसार उधारकर्ता और गारंटर/सह–उपकृत के खिलाफ साउथ इंडियन बैं क लिमिटेड को उपलब्ध है।

उधारकर्ता का ध्यान प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों पर आमंत्रित किया जाता है।

प्रत्याभत परिसंपत्तियों की अनसची ''अन्सूची ए''-खाते में प्रत्याभूत अचल संपत्तियां

मद सं. 1— पट्टाधारित आवासीय फ्लैट सं. 441—बी मापक 18.96 वर्ग मीटर ब्लॉक 'बी' मे स्थित, जो पटेल नगर के नाम से ज्ञात कॉलोनी के भीतर स्थित, तहसील गाजियाबाद. जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश राज्य के साथ, में मौजूदा सुधार और उसके साथ मौजूदा और संबंधित अधिकार सहित, **श्री राजीव यमदागनी** के पुत्र सोंम दत्तें शर्मा (पताकर्ता नंबर 1) के स्वामित्व अधिक विशेष रूप से पट्टा विलेख सं. 6365 दिनांक 13/11/2002 एमआरओ गाजियाबाद के तहत वर्णित है का संपर्ण व सर्वांगीण भाग सीमांकन— उत्तर की ओर : भतल पर मंदिर, दक्षिण की ओर मकान सं. ४४०बी, पूर्व की ओर : 30 फुट सड़क, पश्चिम की ओर छ मकान सं. ४४2बी

मद सं. 2 – पड़ाधारित आवासीय फ्लैट सं. बी–538 मापक 19.14 वर्ग मीटर भतल पर स्थित जो बालमिकी कुंज के नाम से ज्ञात कॉलोनी के भीतर स्थित, तहसील गार्जियाबाद, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश राज्य के साथ, में मौजूदा सुधार और उसके साथ मौजूदा और संबंधित अधिकार सहित, **श्री राजीव यमदागनी** के पुत्र सोम दत्त शर्मा (पताकर्ता नंबर 1) के स्वामित्व अधिक विशेष रूप से पड़ा विलेख सं. 11263 दिनांक 10/10/2012 एमआरओ गाजियाबाद के तहत वर्णित है का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग सीमांकन– उत्तर की ओर : फ्लैट सं. बी–541, दक्षिण की ओर फ्लैट सं. बी—537, पूर्व की ओर : बी—539, पश्चिम की ओर : खुली भूमि।

(मुख्य प्रबंधक) दिनांक : 19.08.2021 स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक सूचना

पुचना सर्व साधारण को सुचित किया जाता है कि मुल बैनामा दिनांकित 14.05.2008 जो वि उपनिबन्धक कार्यालय बुलन्देशहर में दिनांक 14.05.2008 को बही नं0 1 जिल्द नं0 1656 पृष 43/72 क्रमांक 2568 पर पंजीकृत हुआ है और इसे प्रदीप कुमार व प्रवीण कुमार पुत्रगण हीरा सिं तथा श्रीमती यशोदा पत्नि हीरा सिंह ने देवेन्द्र कुमार व योगेश कुमार पुत्रगण रामवीर सिंह के पक्ष गं निष्पादित किया है, कहीं खो गयी है। उक्त बैनामें की सम्पत्ति एक मकान जो कि खसरा नं0 1108/2 का भाग है, रकवई 93.33 वर्ग मीटर स्थित मौ0 सराय लोधगान कस्वा बुलन्दशहर तहसील व जिल बुलन्दशहर है जिसके वर्तमान मालिक हरेन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी मौहल्ला सराय लोधगा . बुलन्दशहर है। जिसने अपनी उक्त सम्पत्ति बैंक ऑफ बड़ौदा रेलवे रोड शाखा के पक्ष में बंधक की हुई । अतः बैंक ऑफ बड़ौदा रेलवे रोड बुलन्दशहर की लिखित अनुमति के बिना इस सम्पत्ति के सा किये जाने वाला हर प्रकाश का व्यवहार अवैध होगा। इस सम्पत्ति को बंधक रखने के सम्बन्ध में कोई आपित्त/दावा हो तो वह अपना/अपनी/अपने आपित्त/दावा लिखित में इस विज्ञापन के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर पंजीकृत डाक के माध्यम से नीचे लिखे पते पर भेज सकतें हैं। यदि किसी व्यक्ति को उक्त मूल बैनामा प्राप्त होंता है तो वह व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक के जरिये **बैंक ऑफ बड़ौदा रेलवे** रोड बुलन्दशहर उ०प्र० पहुंचा दे।

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मूल बैनाम दिनांकित 09.03.2009 जो वि उपनिबन्धक कार्यालय सिकन्द्राबाद में दिनांक 09.03.2009 को बही नं0 1 जिल्द नं0 347 पृष्ठ 65–78 क्रमांक 1697 पर पंजीकृत हुआ है और इसे संजीव कुमार पुत्र जय प्रकाश र श्रीमती पनम यादव पत्नि अशोक कमार के पक्ष में निष्पादित किया है, कहीं खो गयी है। उक्त बैनामें की सम्पत्ति एक मकान जो कि खसरा नं0 1137 / 1 / 2 का भाग है रकवर्ड 83.61 वर मीटर स्थित मौ० एस डी एम कालौनी कस्वा व तहसील सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर है जिसके वर्तमान मालिक सुदेश कुमार यादव पुत्र सुन्दर लाल यादव निवासी म0 नं0 35 एर डी एम कालौनी सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर हैं। जिसने अपनी उक्त सम्पत्ति बैंक ऑप बड़ौदा रेलवे रोड शाखा के पक्ष में बंधक की हुई है। अतः बैंक ऑफ बड़ौदा रेलवे रोड बलन्दशहर की लिखित अनुमति के बिना इस सम्पत्ति के साथ किये जाने वाला हर प्रकाश का व्यवहार अवैध होगा। इस सम्पत्ति को बंधक रखने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति / दावा हे तो वह अपना / अपनी / अपने आपत्ति / दावा लिखित में इस विज्ञापन के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर पंजीकृत डाक के माध्यम से नीचे लिखे पते पर भेज सकतें हैं। यदि किसी व्यक्ति को उक्त मूल बैनामा प्राप्त होता है तो वह व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक के जरिरं बैंक आफ बडौदा रेलवे रोड बलन्दशहर उ0प्र0 पहंचा दे।

परिशिष्ट IV देखें नियम 8(1)

कब्चा सूचना

इंडि<mark>याबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029)</mark> प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **श्रवण कुमार, सुमन सिंह और हिमांशु प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड** को 27.11.2019 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्जे खाता नं. HHLVAS00363649 की राशि रू.32,39,482/- (रूपए **बत्तीस लाख उनतालीस इजार चार सौ बयासी मात्र)और 27.11.2019** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य तनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त भधिकारों का कार्यान्वयन करके 18.08.2021 को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य कर** लिया है विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतत्द्वारा संम्पति के साथ सौदा नहीं करने के लिए प्रावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा **राशी रू.32,39,482/- (रुपए बत्तीस लाख** जनालीस हजार चार सौ बयासी मात्र) 27.11.2019 के अनुसार और उस पर ब्याज के साध दंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नं.बी -602 जिसका कवर्ड एरिया 122.62 स्के.मी. और सुपर कवर्ड एरिया 153.28 स्के.मी अथवा 1650 स्के.फीट, छट्टी मंजिल पर, टॉवर -18, ब्लॉक बी, (बिना रूफ राइट्स के)अवासीय ग्रुप हाउसिंग कॉम्पलेक्स में ["]लॉरेल नेक्स्ट अपार्टमेंट्स", रिवर हाइट्स कॉम्पलेक्स में स्थित, खसरा कॉमन एरिया में अविभाज्य और अखंडीत समानुपातिक भाग के साथ और एक कवर्ड कार पार्किंग जगह के सही उपयोग के साथ उससे जुड़ी सभी मौलीक अधिकारो सहित इमारत

लैट निम्ननुंसार परिबद्ध है:

:टाइटल डीड के अनुसार : टाइटल डीड के अनुसार

पश्चिम : टाइटल डीड के अनुसार दक्षिण : टाइटल डीड के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी


:18.08.2021 इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटे

ख्या १००/यू०पी०एफ०/निर्यात-२०२१ शृक्ति—पत्र (CC दिनांक ¹18/08/2021 एवं बिड संख्या-यूपीशु[™]एकंड/शु[™]गर सेल/2020-21/96 के सत्त्वर में अवगत कराना है कि आमंत्रित ई निविदा के पृष्ठ संख्या–15 एवं पृष्ठ संख्या –24 के बिन् संख्या–11 में दी गई र्शत को निम्नवत् पढ़ा जाये।

प्रबन्ध निदेशक

"The exported quantity of sugar has to be lifted from respective sugar mills within 30 days from date of sale orde issued by U.P. Cooperative Sugar Factories Federation Ltd. Lucknow which can be enhanced keeping in consideration the quantity to be lifted by bidder अन्य नियम एवं शर्ते ई बिड संख्या—यू०पी०शुगरफेड/शुगर सेल/ 2020—21/96 देनांक 18/08/2021 के अन्तर्गत यथावत रहेगी।



ऐक्सिस बैंक आधिपत्य नोटिस रिटेल एसेट्स सेंटर : प्रथम तल, जी-4/5, बी, सेक्टर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226010

कारपोरेट आफिस : तृतीय तल, ब्लाक-बी, बाम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पाण्डुरंग बुधाकर मार्ग, वर्ली मुम्बई-400 025 रजिस्टर्ड आफिस : 'त्रिशूल', तृतीय तल, समराधेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डेन, एलिसब्रिज, अहमदाबाँद-380 006 जबिक अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्र

एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेन्ट) रूल, 2002 के निय 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मा . नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में असफल रहे है, अतः एवं उक्त वर्णित उधारकर्ताअ को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित कियाँ जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के सा पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताअ को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथ उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा **ऐक्सिस बैंक लि0** के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुषंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टेगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी/सह—ऋणी/बन्धकर्ता एवं जमानतकत का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडी (मोचन) कर सकते हैं।

क्र. स.	ऋणी / सह—ऋणी / जमानतकर्ता(ओं) का नाम एवं पता	सुरक्षित सम्पत्ति का विवरण (अचल सम्पत्ति)	कुल बकाया धनराशि
	मेसर्स जोया टिम्बर (ऋणी) द्वारा 321 मोहल्ला छिपियां, लकड़ी मण्डी जसपुर, उधमसिंह नगर,उत्तराखण्ड 244712 भारत, द्वारा प्रोपाइटर राशिद हुसैन श्री राशिद हुसैन (प्रोपाइटर), पुत्र इसरार अहमद निवासी वार्ड नंत 12, मोहल्ला नई बस्ती, निकट चांद मस्जिद,असपुर खुर्द, उधमसिंह नगर,उत्तराखण्ड 244712 एवं :निवासी 321 मोहल्ला छिपियां, लकड़ी मण्डी जसपुर,	रिथत मोहल्ला नई बस्ती, वार्ड नं0 12, जसपुर, तहसील जसपुर जिला उधमसिंह नगर,उत्तराखण्ड 244712 जोिक राशिद हुसैन के नाम क्षेत्रफल—71.37 वर्ग0मी0 चौहद्दी: पूर्व: सड़क पश्चिम: कुकबाल हुसैन का मकान उत्तर: जुबेदा बेगम का मकान	रू. 30,30,770.00 दिनांक 07.01.2020 + दे व्याज व अन्य खर्चे देय सूचना की तिथि : 23.04.2021 कब्जा दिनांक : 17.08.202
2	उधमिसिंह नगर,उत्तराखण्ड 244712 भारत श्री नूरआलम (ऋणी) पुत्र श्री रईस अहमद श्री तािहर आलम (सह—ऋणी) पुत्र श्री रईस अहमद निवासी मंगनंग 143 घेर सेद खां लम्बी गली, शौकत बाग, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत — 244001	दक्षिणः सड़क रिथत घेर सेद खां लम्बी गली, शौकत बाग, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत — 244001 जोकि श्री नूरआलम के नााम क्षेत्रफल—80.92 वर्ग मीठ बौहद्दी: पूर्व: कौसर अख्तर का मकान पश्चिम:सड़क, उत्तर: अब्दुल सलाम का मकान	रू. 17,51,718.00 एवं रू. 8,17,842.00 दिनांक 19.04.2021 + देर व्याज व अन्य खर्चे देय सूचना की तिथि
	मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत — 244001	दक्षिण : कौसर अख्तर का मकान	26.04.2021 कब्जा दिनांक : 18.08.202
_	श्री मसरूर हुसैन (ऋणी), पुत्र मो० फारूख निवासी जिगर रोड़, दीवान का बाजार, मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद,उत्तर प्रदेश – 244001, भारत एकं: निवासी सूफी जी की जियारत मुगलपुरा–1, मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद – 244001, उत्तर प्रदेश श्रीमती फरहाना परवीन (सह-ऋणी), पत्नी मसरूर हुसैन निवासी जिगर रोड़, दीवान का बाजार, मुरादाबाद, मुरादाबाद,	स्थित एल.आई.जी मं0नं0.112, आजाद नगर योजना, सम्भल रोड़, मुरादाबाद— 244001, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल—56.10 वर्ग मी0 चौहर्दी: पूर्व: रास्ता 7.50 मी0 चौड़ा, पश्चिम: एल.आई.जी प्लाट नं0 75, उत्तर: एल.आई.जी प्लाट नं0 111, दक्षिण: एल.आई.जी प्लाट नं0 113	रू. 17,25,031.00 एवं रू. 6,06,187.00 दिनांक 19.04.2021 + देय व्याज व अन्य खर्चे देय सूचना की तिथि 20.04.2021
4	उत्तर प्रदेश — 244001, भारत श्री मो० शहनवाज (ऋणी) पुत्र वारिस नूर निवासी असालतपुरा निकट बेगम वाली मस्जिद मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश — 244001 एवं: द्वारा शहनवाज हैण्डीक्रापट निकट सीमा कान्वेन्ट स्कूल, सक्का अव्यल बरवालां मुगलपुरा मुरादाबाद उठ प्र0— 244001	स्थित ई.डब्ल्यू.एस. मंग्निंग सीएच—12 मोहल्ला कबीर नगर योजना रामपुर रोड, मुरादाबाद— 244001, क्षेत्रफल—53.74 वर्ग मी0 चौहद्दी : पूर्व : मकान नंग सीएच/23,	कब्जा दिनांक : 18.08.202 फ. 15.87,298.00 दिनांक 25.05.2021 + देय ब्याज व अन्य खर्चे देय सूचना की तिथि
	त्री वारिस नूर (सह-ऋणी) पुत्र मों। जफर निवासी असालतपुरा निकट बेगम वाली मस्जिद मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश – 244001,	पश्चिम : सड़क, उत्तर : मकान नं0 सीएच / 11 दक्षिण : मकान नं0 सीएच / 13	25.05.2021 कब्जा दिनांकः 18.08.202
	श्री इकबाल अली (ऋणी) पुत्र आजम अली श्री नजीर अली (सह—ऋणी)	स्थित एम.एम.आई.जी.—2 / बी—23 एकता विहार (साउथ) आवासीय योजना एमडीए कालोनी, जिला मुरादाबाद— 244001	रू. 28,69,161.00 दिनांक 19.04.2021 + देय ब्याज व अन्य खर्चे
	पुत्र आजम अली निवासी घेर सेद फैजगंज निकट लैण्ड मार्क स्कूल, जिला	क्षेत्रफल—167.286 वर्ग मी0 चौहद्दी : पूर्व : एम.एम.आई.जी. III—प्लाट नं०	देय सूचना की तिथि 20.04.2021
	<u> मु</u> रादाबाद — 244001,	बी—24, पश्चिम : एम.एम.आई.जी. III—प्लाट नं0 बी—22, उत्तर : एम.एम.आई.जी. III—प्लाट नं0 बी—26, दक्षिण :सड़क 9 मी0 चौड़ी	कब्जा दिनांकः 18.08.202
┰	नांक : 20.08.2021, स्थान : लखनऊ		कारी), एक्सिस बैंक लि0

होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड CIN:U65990MH2010PTC240703,

वेबसाइट : homefirstindia.com फोन सं. : 180030008425 ईमेल आईडी : loanfirst@homefirstindia.com

निजी संधि के माध्यम से बिक्री की सूचना वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002—(नियम 8(६) के तहत सूचना) के तहत प्रत्याभूत परिसंपत्तियां की बिक्री

होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड (होम फर्स्ट) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने हमें आपके द्वारा देय बकाया राशि के संबंध में विषय अधिनियम की धारा 13(4) के संद में अनुसूचित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। कृपया नीचे उल्लेखित हमारी सूचना का संदर्भ लें, जिसमें हमने सूचित किया है कि हमने उल्लेख किए गए आरक्षित मूल्य को निर्धारित करके उ ल्लेखि समाचार पत्र में नीलामी सूचना प्रकाशित कि है। नीलामी को वर्णित दिनांक के अनुसार निर्धारित किया गया था। नीलामी किसी भी बोलीदाता की कमी के कारण सफल नहीं हो सकी।

बड़े पैमाने पुर सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि अनुसूची में उल्लेखित प्रत्याभूत संपत्ति (याँ) निजी संघि के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध है, जैसा कि कंपनी से सहमत शर्तों के अनुसार कंपन के बकाए की वसूली के लिए जो है ⁷⁷ जहां है आधार'' और ''जी है जैसा है आधार है'' आधार पर। इसलिए, इसके तहत किए गए विषय अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के संदर्भ में, हम आपको यह सूचनाजारी करते हैं ताकि आप इस सूचना की दिनांक से 15 दिनों के भीतर कंपनी के बकाया राशि का निर्वहन कर सकें और असूची में उल्लेखित परिसंपत्तयों को वापस ले सकें, ऐसा न होने पर देनदारिये

को निर्वहन करने के लिए परिसंपत्तियों को बेचा जाएगा। यह विषय अधिनियम या लागू किसी अन्य कानून के त हत कंपनी को उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है। इच्छूक पक्ष अधिक जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए और अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। बिक्री सरफैसी अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार

3	ज्ञ. खाते का तं. नाम/ गारंटरों	संपत्ति का विवरण/ संपत्ति का स्वामित्व	मांग सूचना अनुसार बकाया राशि (रू. में)	मांग सूचना अनुसार बकाया राशि (रू. में)	बिक्री सूचना दिनांक	समाचारपत्र	ई–नीलामी दिनांक	आरक्षित मूल्य (रू. में)	प्राधिकृत अधिकारी संपर्क सं.
	।. गाजियाबाद	सविता चक्रवर्ती, आशीत चक्रबोर्ती. अनिल चक्रवर्ती	प्लॉट सं. सी–37, खसरा सं. 642, प्राइम सिटी 3, ग्राम अच्छेजा गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश– 201009	6,40,898	13 जुलाई 2021	बिजनेस स्टैण्डर्ड (अंग्रेजी + हिंदी)	13 अगस्त 2021	9,55,000.00/-	8587942234
7	2. गाजियाबाद	काजल कुमारी, मिथुन चक्रवर्ती	फ्लैट सं. 205 दूसरा तल प्लॉट सं. एफ5 और एफ6 साई उपवन कॉलोनी, ग्राम-युसूफपुर चकशाहवेरी, परगना और तहसील–दावरी गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301	10,00,370	13 जुलाई 2021	बिजनेस स्टैण्डर्ड (अंग्रेजी + हिंदी)	13 अगस्त 2021	9,00,000/-	8587942234

सरफैसी अधिनियम, 2002 के तहत वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना एतद् द्वारा उधारकर्ता / गारंटर को इस सूचना की दिनांक से 15 दिनों से पहले मांग सूचना और सहायक व्यय के साथ—साथ मांग सूचना में उल्लेखित राशि का भुगतान करने के लिए अधिसूचित किय

जातो है, ऐसा न होने पर संपत्ति की नीलोंमी / बिक्री की जाएगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज और लागत के साथ वसूल कियो जाएगा। हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(संदीप हांडा)

सम्पत्ति का विवरण सम्पत्ति अर्थात आवासीय फ्लैट नं. एस-1/90, दूसरी मंजिल, प्लॉट माप 140 वर्ग ₹ 1, 88,00,000/-<u>ई.एम.डी.</u> गज पर निर्मित, न्यू राजधानी एन्कलेव, दिल्ली-110092 रू. 18,80,000/-2. संविदाएँ जिस राशि द्वारा बढ़ाई जायेंगी वे रु. 1,00,000 / — (रुपये एक लाख मात्र) होगी। संविदा की राशि अथवा संविदाकार के पक्ष से उत्पन्न किसी विवाद की स्थिति में सम्पत्ति को पुनः नीलामी के लिए रखा जायेगा। 3. उच्चतम संविदाकार को सफल उच्चतम संविदाकार घोषित किया जायेगा। यदि प्रस्तावित मल्य इतना अधिक अस्पष्ट हो कि संविदा का निर्णय करना अपरामर्शनीय हो तो उच्चतम संविदा को अस्वीकार करना / स्वीकार करना अधोहस्ताक्षरी के विशेष अधिकार का विषय होगा। 4. बयाना राशि, वसूली अधिकारी—।, ऋण वसूली अधिकरण—।।।, दिल्ली के पक्ष में डीडी / पे ऑर्डर के रूप में 26.09.2021

तक जमा करनी होगी। इसके पश्चात जमा की गयी बयाना राशि पर ई—नीलामी में भाग लेने पर विचार नहीं किया जायेगा। 5. यदि वे स्वयं या अपने प्रमुखों की ओर से संविदा कर रहे हों तो पैन कार्ड, पते के प्रमाण तथा पहचान प्रमाण पत्र की प्रति। प्रमुखों की ओर से संविदा की स्थिति में उन्हें अपने प्राधिकार जमा करने अपेक्षित हैं, और इसके अभाव में उनकी संविदाएँ निरस्त कर दी जायेंगी। कम्पनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की कम्पनी की प्रति अथवा कम्पनी के प्रतिनिधित्व / वकील की पुष्टि करने वाले कोई अन्य दस्तावेज ई–मेल या अन्य माध्यम से कथित तक कथित सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक के पास पहुँच जाना चाहिए और इसकी कागजी प्रति वसूली अधिकारी–।।, ऋण वसूली अधिकरण–।।।, नई दिल्ली के पास जमा करनी होगी।

6. असफल संविदाकारों को अपनी ईएमडी के रिफंड हेतु आरसी की सुनवाई की निर्धारित तिथि तक या इससे पूर्व डीआरटी–।।। की रिजस्ट्री में पहचान के प्रमाण सहित एक आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है जिसा तदनुसार आरसी की सुनवाई की अनुसूची / तिथि पर रिफंड किया जायेगा।

7. सफल संविदाकार को बयाना राशि के समायोजन के पश्चात उसकी अन्तिम संविदा की राशि का 25% अगले कार्यकारी दिवस को 3.00 बजे अपराह्न तक उपर्युक्त पैरा 4 में उल्लिखित विवरणों के अनुसार कथित खाते में जमा करनी होगी।

8. सफल उच्चतम संविदाकार को अन्तिम पुरानी राशि की शेष 75% राशि सम्पत्ति के विक्रय की तिथि के 15वें दिन या इससे पूर्व जमा करनी होगी। यदि 15वाँ दिन रविवार या अवकाश होता है तो उपर्युक्त पैरा 4 में उल्लिखित के अनुसार निर्धारित माध्यम से 15वें दिन के पश्चात बैंक के पहले कार्यकारी दिवस में जमा करनी होगी। **उपर्युक्त के अतिरिक्त सफल उच्चतम संविदाकार को वसूली** अधिकारी- । ।, डीआरटी- । ।। के पास रु. 1,000 / - तक 2% की दर से तथा रु. 1,000 / - की कथित राशि से अधिक होने पर 1% की दर से पाउण्डेज शुल्क भी रजिस्ट्रार, डीआरटी—।।। के पक्ष में डीडी के माध्यम से जमा करना होगा।

9. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक करने की स्थिति में विक्रय की नवीन घोषणा के निर्गमन के पश्चात सम्पत्ति का पुनः विक्रय किया जायेगा। यदि अधोहस्ताक्षरी उचित समझता है तो विक्रय के व्ययों को घटाने के पश्चात जमा राशि सरकार द्वारा जब्त कर ली जायेगी और चूककर्ता सफल उच्चतम संविदाकार को सम्पत्ति अथवा अनुगामी विक्रय होने से प्राप्त राशि के किसी भी अंश के सभी प्रकार के दावे से वंचित

10. सम्पत्ति का विक्रय ''जहाँ है जैसे है और जो है यही है'' के आधार पर किया जा रहा है।

11. इस चरण तक अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में सम्पत्तियों के विरुद्ध कोई राजस्व / ऋणभार अथवा दावा नहीं है। किन्तु सम्भावित संविदाकारों को बयाना राशि जमा करने से पूर्व अपने निजी हित में बिजली / पानी / गृहकर के बिल अथवा कोई अन्य ऋण भार आदि के विषय में गहन जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए।

12. असफल संविदाकार अपनी ईएमडी के रिफंड हेत् आरसी की सुनवाई की अगली निर्धारित तिथि को या इससे पूर्व डीआरटी—प्प की रजिस्ट्री में अपने पहचान प्रमाण के साथ आवेदन दाखिल करें जिसे तदनुसार आरसी की सुनवाई की अनुसूची / आगामी तिथि को रिफंड कर

13. सीएच बैंक को यहां दिये गये विवरणों की सत्यता का प्रमाणन तथा जांच करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

मेरे हस्ताक्षर तथा मुहर सहित 31 जुलाई, 2021 को जारी किया गया।

वसूली अधिकारी-।, डीआरटी-॥।, दिल्ली